

LIFE SAVING RULES

Work with a valid work permit when required



Obtain authorization before entering a confined space



Protect yourself against a fall while working at height



Verify isolation and zero energy before work begins



Control flammable and ignition sources



Obtain authorization before overriding or disabling safety controls.



Keep yourself and others out of the line of fire



Plan lifting operations and control the area



Follow safe driving rules



Be in a state to perform work safely




Do not work under the influence of alcohol or drugs



Exercise your right to stop unsafe acts or conditions observed




VIJAY CHOWGULE
CHAIRMAN

Rev-03
15.03.2023

जीवन रक्षक नियम

आवश्यकता पड़ने पर
वैध वर्क परमिट के
साथ काम करें।



ऊंचाई पर काम करते
समय खुद को गिरने से
बचाएं।



सीमितस्थान में प्रवेश करने
से पहले प्राधिकरण प्राप्त
करें।

ज्वलनशील और
ज्वलनशील स्रोतों को
नियंत्रित करें।




काम शुरू करने से पहले
अलगाव और शून्य ऊर्जा
की जाँच करें।

खुद को और दूसरों को
आग की रेखा से बाहर
रखें।



सुरक्षा नियंत्रणों को
ओवरराइड करने या
अक्षम करने से पहले
प्राधिकरण प्राप्त करें।

सुरक्षित ड्राइविंग नियमों
का पालन करें।



उठाने के संचालन की
योजना बनाएं और क्षेत्र
को नियंत्रित करें।


शराब या नशीली
दवाओं के प्रभाव में
काम न करें।



सुरक्षित रूप से काम
करने की स्थिति में रहें।

देखे गए असुरक्षित कार्यो
या शर्तो को रोकने के
लिए अपने अधिकार का
प्रयोग करें।





विजय चौगुले
अध्यक्ष

संशोधन-०३

१५.०३.२०२३

जीवन रक्षक नियम

जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा वैध वर्क परमिट घेऊन काम करा.



उंचीवर काम करताना पडण्यापासून स्वतःचे रक्षण करा.



ज्वलनशील आणि प्रज्वलन स्रोत नियंत्रित करा.



स्वतःला आणि इतरांना आगीच्या रेषेपासून दूर ठेवा.



सुरक्षित वाहन चालवण्याचे नियम पाळा.



अल्कोहोल किंवा ड्रग्सच्या प्रभावाखाली काम करू नका.



प्रवेश करण्यापूर्वी अधिकृतता मिळवा.



काम सुरू होण्यापूर्वी अलगाव आणि शून्य ऊर्जा सत्यापित करा.



सुरक्षा नियंत्रणे ओव्हरराइड किंवा अक्षम करण्यापूर्वी अधिकृतता मिळवा.



लिफ्टिंग ऑपरेशन्सची योजना करा आणि क्षेत्र नियंत्रित करा.



सुरक्षितपणे काम करण्यासाठीच्या स्थितीत रहा.



असुरक्षित कृत्ये किंवा पाळलेल्या अटी थांबवण्याचा तुमचा अधिकार वापरा.



विजय चौगुले
अध्यक्ष

पुनरावृत्ती-०३
१५.०३.२०२३